

PERMANENT RESTORATION

To 2 KISHANIPUR To RANAWI

Schedule XLV-Form No. 134

BENIPUR DIVISION

BENIPUR SUB-DIVISION

Measurement Book

261193H1511

N.D.B.No- 1421


M.B. No - 1421

PERMANENT RESTORATION

INDEX

PAGE

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी
पुस्तक में कुल 100 पन्ने (1:1) हैं जोस को
सहायक अभियंता श्री. उमशोक कुमार ग्रामीण
कार्य विभाग कार्य अवर प्रमंडल
नाम से निर्गत किया जाता है



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बेंनीपुर (वरमंग)

2
06-02-21

INDEX

PAGE

Name of Work—
 Situation of Work—
 Agency by which work is executed—
 Date of Measurement—
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1st & 2nd bill				
Name of work	Construction of permanent road from				
	To Kishanpur to Ramguli				
	under 3054 PDR.				
Agency's name	Rajeev K. Jha.				
	80 Chandra Bhanu Jha				
	At + To - N. road, P. S. B. Jha.				
	Dist. Dargahanga P. S. 847201				
Ag. No.	07 P2/2021-22				
Date of start	6/7/21				
Date of Comp. of work	20/7/21				

Rate	0.02% Below from 308.00				

① Scavenging the existing bituminous surface - 20 cft

5x	12x	1.1 = 66	
10x	6x	0.9 = 54	
19x	14x	0.8 = 212.8	
11x	12x	0.6 = 79.2	
			412 m ²
② P.V. 455 Pr 2 do - do - cft			
10x	10x	5.5 = 325	

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	10x	6x	1.30x	0.12	7.8
	14x	8x	1.07x	0.12	11.2
	20x	10x	0.8x	0.12	16.1
	7x	5x	1.2x	0.12	4.2
	16x	16x	1.07x	0.12	25.6
					64.8 m ²

③ PIV WDNH III do - do - do

	10x	$\frac{10+5.5+3.75}{3}$	$\times 0.075 =$	4.81
	9x	30x	3.75x	0.075 = 75.94
	1x	30x	3.60x	0.075 = 8.10
	1x	30x	3.40x	0.075 = 7.65

	1x	30x	4.10x	0.075 = 9.23
	1x	30x	3.90x	0.075 = 8.77
	2x	30x	3.75x	0.075 = 16.88
	1x	20x	4.30x	0.075 = 6.45
	2x	30x	3.75x	0.075 = 16.88
				154.71 m ²

④ PIVCE Pavement No. do - do - do

	10x	$\frac{10+5.50+3.75}{3}$	$\times 0.16 =$	10.27
	9x	30x	3.75x	0.16 = 16.2
	1x	30x	3.60x	0.16 = 17.28
	1x	30x	3.40x	0.16 = 16.32
	1x	30x	4.10x	0.16 = 19.68
	1x	30x	3.90x	0.16 = 18.72

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	27	30x	375x	0.16	36.0
	17	20x	430x	0.16	13.76
	27	30x	375x	0.16	36.0
					330.034
(5) Containing sub-grade & eff. soil					
	2747	30x	$\frac{0.6112}{2} \times 0.5106$		$\frac{2}{2} = 118.8$
	117	30x	$\frac{0.4409}{2} \times 0.5105$		$\frac{2}{2} = 107.25$
	87	30x	$\frac{0.4405}{2} \times 0.5108$		$\frac{2}{2} = 70.2$
					296.254
	Adams	19/7/21			
	Suman	19/7/21			

Abstract of Cost					
(1) Scavenging & existing bituminous surface					
Qty vide T.B.P. 124-1					
4124 ² e.B. 1296/107 ² — B. 7400.00					
(2) P.V. G.B. T.R. do do eff.					
Qty vide T.B.P. 1402 B.C. 2					
64.87 ³ e.B. 3126.98/7 ³ — B. 202628.00					
(3) P.V. N.B. T.R. do do eff.					
Qty vide T.B.P. 2803 154.717 ³					
LA 154.697 ³ e.B. 3935.17/7 ³ — B. 608731.24					
(4) P.V. cement 1/2 do do eff.					
Qty vide T.B.P. 2403 B.C. 4 — 330.034					
LA 3307 e.B. 7282.00/7 ³ — B. 248060.00					
3221819.00					

Continuation

Scanned with CamScanner